

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 482] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 1979/कार्तिक 29, 1901
No. 482] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1979/KARTIKA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1979

का. आ. 742(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं. 434/नागालैण्ड/79(1) तारीख 6 अक्टूबर, 1979 को अधिकांत करते हुए, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को नागालैण्ड राज्य के नागालैण्ड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है :—

1. उपायुक्त, कोहिमा ।
2. उपायुक्त, फेक ।
3. उपायुक्त, मोकोकचूंग ।

4. उपायुक्त, जुन्हेबोटो ।
5. उपायुक्त, बोखा ।
6. उपायुक्त, मोन ।
7. उपायुक्त, ट्यूनसांग ।
8. अतिरिक्त उपायुक्त, किफिरे ।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, परेने ।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, दोमापुर ।
11. अतिरिक्त उपायुक्त, आयुक्त के कार्यालय, नागालैण्ड, कोहिमा ।

[सं. 434/नागालैण्ड/79(1)]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1979

S.O. 742(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of the Commission's Notification No. 434/NL/79(1) dated 6th October, 1979, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government of Nagaland to assist the Returning Officer of the Nagaland Parliamentary Constituency in the State of Nagaland in the performance of his functions :—

1. Deputy Commissioner, Kohima.
2. Deputy Commissioner, Phek.
3. Deputy Commissioner, Mokokchung.
4. Deputy Commissioner, Zunheboto.
5. Deputy Commissioner, Workha.
6. Deputy Commissioner, Mon.
7. Deputy Commissioner, Tuensang.
8. Additional Deputy Commissioner, Kiphire.
9. Additional Deputy Commissioner, Peren.
10. Additional Deputy Commissioner, Dimapur.
11. Additional Deputy Commissioner, Office of the Commissioner, Nagaland, Kohima.

[No. 434/NL/79(1)]

By Order,

K. GANESAN, Secy. to the Election Commission of India